



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 चैत्र 1945 (श0)

(सं0 पटना 249) पटना, बृहस्पतिवार, 23 मार्च 2023

सं०-12/राज्य गजे०/संवर्ग नियमावली (विधायी) 02/2021/22-(12)
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचंद पटेल पथ, पटना।

पटना दिनांक 20/03/2023

विषय :- बिहार गजेटियर्स शोध पदाधिकारी सेवा संवर्ग का पुनर्गठन/पद सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत।

2. राज्य सरकार द्वारा पुनर्गठन के पश्चात् बने नये जिलों के जिला गजेटियर का लेखन एवं प्रकाशन तथा पुराने जिला गजेटियरों के पुनर्मुद्रण हेतु गजेटियर शाखा, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यबल में वृद्धि करते हुए बिहार गजेटियर्स शोध पदाधिकारी सेवा संवर्ग नियमावली, 2018 के तहत अधोलिखित तालिका के क्रम संख्या-02 एवं 03 पर कंडिका-02 में वर्णित पद हेतु कंडिका-03 में वर्णित वेतनमान पर कंडिका-05 में वर्णित पदबल सृजित/स्वीकृत किया जाता है :-

क्र०	पदनाम/पद सोपान	वेतन स्तर	पूर्व से स्वीकृत पद	नव स्वीकृत पद	कुल पद
1	2	3	4	5	6
1.	शोध पदाधिकारी (मूल कोटि)	level-7	03	अपरिवर्तित	03 (तीन)
2.	उप राज्य सम्पादक (प्रथम प्रोन्नति स्तर)	level-9	00	01	01 (एक)
3.	संयुक्त राज्य सम्पादक (द्वितीय प्रोन्नति स्तर)	level-11	00	01	01 (एक)

3. प्रस्तावित संवर्ग के पुनर्गठन/पद सृजन के फलस्वरूप कुल अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार—₹ 24,00,000.00 (चौबीस लाख रुपये) मात्र अनुमानित है। इससे संबंधित विस्तृत व्यय विवरणी अनुलग्नक-01 के रूप में संलग्न है। उपर्युक्त अनुमानित व्यय के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्ते भी देय होंगे।

4. उक्त व्यय का वहन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (गैर योजना) अन्तर्गत माँग संख्या-40 के मुख्य शीर्ष 2070, उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-800, उपशीर्ष-0002 में उपबंधित राशि से अथवा राशि उपबंध कराकर किया जायेगा।

5. उपर्युक्त संवर्ग के पुनर्गठन/पद सृजन के प्रस्ताव में प्रशासी पदवर्ग समिति की अनुशंसा एवं राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक-24.02.2023 की बैठक में (मद संख्या 06) स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश मेहरोत्रा,
अपर मुख्य सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 249-571+10-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>